



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1978/श्रावण 25, 1900

No. 237]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1978/SRAVANA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1978

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सं० 407(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नगक अधिनियम, 1941 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, उस पर उद्घरण्य उत्तम उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्संबन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है।

सारणी

चीनी का वर्णन

उत्पाद-शुल्क

1

2

16 अगस्त, 1978 से आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कारखाने में उत्पादित चीनी, जो पूर्ववर्ती तीन चीनी-वर्षों की तत्संबन्धी अवधि में औसत उत्पादन से अधिक है।

प्रति बिश्टल
25 रु०

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना में—

- (क) "औसत उत्पादन" से किसी कारखाने में किसी अवधि में उत्पादित चीनी के संबंध में, प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन चीनी-वर्षों की तत्संबन्धी अवधि के दौरान औसत उत्पादन अभिप्रेत है ;
- (ख) "चीनी वर्ष" से एक प्रकृत्तबर की आरम्भ होने वाले और प्रागामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाले बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

2. उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में वर्णित अवधि के दौरान, उसमें वर्णित कारखाने के संबंध में चीनी के उत्पादन की संगणना करने में,—

- (i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के परिशिष्ट 1 में विहित प्ररूप आर० जी० 1 में या ऐसे किसी अन्य अभिलेख में, जो कलक्टर उक्त नियमों के नियम 53 या नियम 173-छ के अधीन विहित करे ; दिया गया डाटा अपनाया जाएगा ;
- (ii) गुड़ या खांडसारी चीनी को परिष्कृत करने से प्राप्त चीनी हिमाव में नहीं ली जाएगी ;
- (iii) किसी पूर्ववर्ती चीनी-वर्ष की समाप्ति पर प्रसंस्करण में छोड़े गए घरेलू चीनी उत्पादों के पुनः प्रसंस्करण में प्राप्त चीनी हिमाव में ली जाएगी और
- (iv) खराब या अतिथस्त चीनी या भूरी चीनी के पुनः प्रसंस्करण से प्राप्त कोई चीनी, यदि उत्पादित चीनी के परिणाम में उसे पहचान हो सम्भवित किया गया है, हिमाव में नहीं ली जाएगी ;

3. जहाँ उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अवधि के दौरान, पूर्ववर्ती तीन चीनी-वर्षों में से किसी के दौरान उत्पादन शून्य था वहाँ औसत उत्पादन का अवधारण निम्नलिखित रूप में किया जाएगा :—

पूर्ववर्ती तीन चीनी-वर्षों में उक्त अवधि के लिए औसत उत्पादन, उस अवधि या उन अवधियों के, जिनमें उक्त अवधि के दौरान कारखाना वास्तव में चालू था, आधार पर निकाला जाएगा और औसत निकालते समय उस अवधि या अवधियों को, जिनमें उक्त अवधि के दौरान वह चालू नहीं था, छोड़ दिया जाएगा।

4. जहाँ 16 अगस्त को आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर को समाप्त होने वाली अवधि, सभी तीन चीनी-वर्षों में, के दौरान उत्पादन शून्य था, वहाँ 16 अगस्त, 1978 को आरम्भ होने वाली और 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान के समस्त उत्पादन पर, इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जाएगी।

5. इस अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, उस कारखाने को, जिसका चीनी का समग्र उत्पादन, 1977-78 के चीनी वर्ष के दौरान, पूर्ववर्ती तीन चीनी-वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक नहीं है, इस अधिसूचना के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क से छूट नहीं दी जाएगी। जहाँ पूर्ववर्ती तीन चीनी वर्षों में से किसी के दौरान उत्पादन शून्य था वहाँ औसत उत्पादन का अवधारण निम्नलिखित रूप से किया जाएगा।

औसत उत्पादन उस चीनी वर्ष या वर्षों के, जिनमें कारखाना वास्तव में चालू था, आधार पर निकाला जाएगा और औसत निकालते समय, उस चीनी वर्ष या वर्षों को, जिन पूर्ववर्ती तीन चीनी वर्षों में चालू नहीं था, छोड़ दिया जाएगा।

[सं० 151/78 सी ई फा० सं० 14/63/78-सी एक्स-1]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

Central Excises

New Delhi, the 16th August, 1978

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts sugar, described in column (1) of the Table below and falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE	
Description of Sugar	Duty of Excise
1	2
Sugar produced in a factory during the period commencing on 16th day of August, 1978, and ending with the 30th day of September, 1978, which is in excess of the average production of the corresponding period of the preceding three sugar years.	Rs. 25 per quintal.

Explanation :—In this notification—

(a) "average production", in relation to sugar produced in a period in a factory, means the average production during the corresponding period of each of the preceding three sugar years;

(b) "sugar year" means the period of twelve months commencing on the 1st day of October and ending with the 30th day of September next following.

2. In computing the production of sugar during the period mentioned in column (1) of the said Table in respect of a factory mentioned therein :—

(i) the date, as furnished in Form R. G. 1 prescribed in Appendix 1 to the Central Excise Rules, 1944, or in such other record as the Collector may prescribe under rule 53 or rule 173-G of the said rules, shall be adopted;

(ii) any sugar obtained by refining gur or khandsari sugar shall not be taken into account;

(iii) any sugar obtained by reprocessing of sugar house products left over in process at the end of any preceding sugar year shall be taken into account; and

(iv) any sugar obtained by re-processing of defective or damaged sugar or brown sugar, if the same has already been included in the quantity of sugar produced, shall not be taken into account.

3. Where during the period mentioned in column (1) of the said Table production in any of the preceding three sugar years was nil, the average production shall be determined as under :—

The average production for the said period in the preceding three sugar years shall be worked out on the basis of the period or periods in which the factory had actually worked during the said period and the period or periods in which it did not work during the said period shall be ignored while arriving at the average.

4. Where production during the period commencing on the 16th August and ending with the 30th September in all the preceding three sugar years was nil, the entire production during the period commencing on the 16th day of August, 1978 and ending with the 30th day of September, 1978, will be entitled to the exemption under this notification.

5. Notwithstanding anything contained in this notification, a factory whose overall production of sugar during the 1977-78 sugar year does not exceed the average production of the preceding three sugar years shall not be entitled to any exemption of duty of excise under this notification. Where production in any of the preceding three sugar years was nil, the average production shall be determined as under :—

The average production shall be worked out on the basis of the sugar year or years in which the factory had actually worked and the sugar year or years in which it did not work during the preceding three sugar years shall be ignored while arriving at the average.

[No. 151/78-CE. F. No. 14/63/78-CX. 1]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०का०नि० 408(प्र)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी को, जिसकी निकासी 16 अगस्त, 1978 को या उसके पश्चात की जाए, उस पर उद्घाटनीय उत्तरे उत्पाद-शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना क्रमशः साढ़े ग्यारह प्रतिशत और छह प्रतिशत की दर से संगणित शुल्क और अतिरिक्त शुल्क से अधिक हो।

[सं० 152/78 फा०सं० 14/63/78-सी एक्स-1]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), cleared on or after the 16th day of August, 1978, from so much of the duty of excise and the additional duty of excise leviable

thereon as is in excess of the duty and additional duty calculated at eleven and a half percent and six percent respectively.

[No. 152/78 CE/F. No. 14/63/78 CX. I]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सांकांनि० 409(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 137/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1978 को अधिकांत करते हुए, 16 अगस्त, 1978 को या उसके पश्चात् निकासी की गई, तथा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली और मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य चीनी के लिए वो सौ पन्द्रह रुपए प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है।

[सं० 153/78-सी०ई० फा०सं० 7/5/78-सी एक्स-1]

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 137/78-Central Excises, dated the 1st July, 1978, the Central Government hereby fixes a tariff value of two hundred and fifteen rupees per quintal for sugar cleared on or after the 16th day of August, 1978, and falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and Chargeable with duty ad valorem.

[No. 153/78-CE/F. No. 7/5/78-CX. I]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सांकांनि० 410(अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात्:—

1. सं० 36/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1976
2. सं० 36/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1976
3. सं० 317/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 1977
4. सं० 318/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 नवम्बर, 1977।

[सं० 154/78 सी ई/फा० सं० 14/63/78-सी एक्स 1]

बी० प्रसाद, अव्वर सचिव

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 410(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the followings notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue, as the case may be, namely:—

1. No. 35/76-Central Excises, dated the 25th February, 1976.
2. No. 36/76-Central Excises, dated the 25th February, 1976.
3. No. 317/77-Central Excises, dated the 16th November, 1977.
4. No. 318/77-Central Excises, dated the 16th November, 1977.

[No. 154/78 CE/F. No. 14/63/78 CX. I]

B. PROSAD, Under Secy.

